

तुरंत रिलीज के लिए

21 से 23 अगस्त तक, कल्चर कॉल्स वीकेंडर में ब्रैम्पटन की रचनात्मक प्रतिभा के बारे में जानें!

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (14 अगस्त, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 21 से 23 अगस्त तक कल्चर कॉल्स वीकेंडर (Culture Calls Weekender) नामक, ऑनलाइन कार्यक्रम पेश कर रही है। जिसमें ब्रैम्पटन की उभरती रचनात्मक प्रतिभा के साथ, प्रदर्शन, पैनल चर्चाएं और वर्कशॉप्स पेश की जा रही हैं।

कल्चर कॉल्स वीकेंडर, रचनात्मक अभिव्यक्ति, सहयोग और समुदाय के लिए एक डिजिटल अनुभव है। कॉमेडियन्स, संगीतकारों और स्पोकन वर्ड कलाकारों सहित, 15 से अधिक लोकल कलाकार, Instagram Live @TheRoseBrampton पर, और जूम (Zoom) पर, द रोज वर्चुअल स्टेज (The Rose Virtual Stage) पर, तीन-दिनों के फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे।

इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोकल कलाकारों में शामिल हैं, ब्रैण्डन ऐश-मुहम्मद (Brandon Ash-Mohammed), मार्टिन ऐनेन (Martín Añón), [माया किल्ट्रोन \(Maya Killtron\)](#), [टीआरपी .पी \(TRP.P\)](#), [निकोल चैम्बर्स \(Nicole Chambers\)](#), [रीको रीफ \(Reeko Rieffe\)](#), रेचल ब्राउन (Rachelle Brown), आर. फ्लेक्स एंड रोशनी (R. Flex & Roshanie), जोएल वाइट (Joelle White), जोस्फिन क्रूज़ (Josephine Cruz), किओशा लव (Keosha Love), लिटनी स्पीज़ (Litney Spearz), [जोया \(Joyia\)](#), [डेजिरी मकेंजी \(Desiree Mckenzie\)](#), और [सिद्धार्थ \(Siddhartha\)](#)।

कल्चर कॉल्स वीकेंडर, कोविड-19 (COVID-19) के दौरान हमारे समुदाय में कलाकारों को सहयोग देने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन द्वारा कल्चर कॉल्स (Culture Calls) सीरीज का विस्तार है। इसकी मेजबानी लोकल डी.जे. (DJ) और रेडियो मेजबान रोशनी (Roshanie) द्वारा की जा रही है। ब्रैम्पटन के कलाकार, जैसमीन पन्नू (Jasmin Pannu) ने फेस्टिवल के लिए आर्टवर्क तैयार किया है, जिसमें ब्रैम्पटन के क्लासिक लैंडमार्क और विजुअल पेश किए गए हैं, जैसे गार्डन सक्वेयर (Garden Square), 410 साइन और सोनीज (Sonny's)।

[कार्यक्रमों के पूरे शेड्यूल के लिए यहां क्लिक करें \(Click here for a full schedule of events\)](#)।

हवाले

“कल्चर कॉल्स, कोविड-19 महामारी के दौरान, ब्रैम्पटन के रचनात्मक समुदाय में बेहद सफल रहा है। मैं कल्चर कॉल्स वीकेंडर में, अधिक लोकल कलाकारों के इकट्ठे आने और ब्रैम्पटन को प्रेरित करने के लिए उत्साहित हूँ। चाहे आप शानदार संगीत या फिर कॉमेडी वाले मनोरंजन का मज़ा लेना चाहते हैं, मैं हर किसी को इस वीकेंडर Instagram Live और जूम द्वारा इस ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होने की सलाह देता हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कल्चर कॉल्स वीकेंडर, ब्रैम्पटन के रचनात्मक समुदाय के लिए, एक महत्वपूर्ण और रोमांचक कार्यक्रम है, विशेषकर इस मुश्किल समय के दौरान। ब्रैम्पटन का कला और सांस्कृतिक रंगमंच विकसित हो रहा है। हमारे समुदाय को इकट्ठा लाने और एक-दूसरे को सशक्तिकरण प्रदान करने का शानदार अवसर है। अपने कैलेंडर में तारीखें और कार्यक्रमों का निशान लगाना सुनिश्चित करें।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चर*

“हम द रोज़ वर्चुअल स्टेज पर, कल्चर कॉल्स वीकेंडर की मेजबानी करने के लिए उत्साहित हैं। कल्चर में हमारी टीम के साथियों और लोकल व्यवस्थापकों (क्यूरेटर्स) के साथ काम करना, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमेशा, हमारे लिए सम्मान और खुशी भरा रहा है; और इस कारण ही हम जानते हैं कि ब्रैम्पटन के सभी नागरिकों को शामिल करते हुए, हमें इसे और भी महत्वपूर्ण बनाना है। ”

- *स्टीवन शिप्पर (Steven Schipper), एग्जीक्यूटिव आर्टिस्टिक डायरेक्टर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में भरपूर प्रतिभा है। कल्चर कॉल्स वीकेंडर, उस प्रतिभा को एक साथ लाने में, हमारे कल्चरल सर्विसिज स्टाफ के परिश्रम का नतीजा है। इस मुश्किल समय के दौरान, कल्चर कॉल्स वीकेंडर, हमारे कला और सांस्कृतिक समुदाय के लिए एक रोमांच है।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca